

# प्रेसनोट दिनांक 17-02-2021 जनपद मुरादाबाद ।

## 1 - चोरी की 04 मोटर साइकिल सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, थाना डिलारी:-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ एव श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बरेली, पुलिस महानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद एंव श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मुरादाबाद के आदेशानुसार वाहन चोरी करने वाले शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 17.02.2021 की प्रातः समय करीब 9.00 बजे श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एव श्रीमान क्षेत्राधिकारी ठाकुरद्वारा के निर्देशन में थाना डिलारी पुलिस द्वारा की जा रही वाहन चैकिंग के दौरान चौकी जलालपुर गेट पर मो0सा0 हीरो स्पैलण्डर प्लस न0 यूपी 16 सीएफ 8761 पर बैठे दो वाहन चोरो को पकड़ लिया पकड़े गया । दोनो अभियुक्तगण की निशादेही पर चोरी की तीन अन्य मोटर साइकिलो को भी बरामद किया गया । दोनो गिरफ्तार अभियुक्तगण एवं इनके एक फरार साथी अभियुक्त द्वारा मिलकर यह मो0सा0 थाना कटघर मुरादाबाद व थाना इन्द्रापुरम गजियाबाद व काशीपुर उत्तराखण्ड से चोरी कर लाकर धोखाधडी से छल पूर्वक उक्त गाडियो पर फर्जी व कूटरचित अन्य नम्बरो की नम्बर प्लेट लगाकर ब्रिकी करने के उद्देश्य से रखी गई थी । कुल 04 मोटर साइकिल बरामद कर 02 अभियुक्तगणो को मौके से गिरफ्तार किया गया तथा 01 अभियुक्त पुलिस को देखकर भागने में सफल हो गया उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना डिलारी पर मु0अ0स0 27/21 धारा 41/102 सीआरपीसी व 413/414/420/467/468/471 भादवि पंजीकृत किया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम पते:-

1. सोनीर पुत्र लईक कुरैशी नि0 मोहल्ला जामा मस्जिद कस्बा व थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद
2. उस्मान उर्फ कमरुद्दीन पुत्र स्वः मुनन्न नि0 ग्राम लक्ष्मीपुर कटई थाना मुण्डापाण्डे जनपद मुरादाबाद

### फरार अभियुक्त का नाम पता-

1. राशिद अली उर्फ लम्बु पुत्र मौ0 बाबू नि0 ग्राम मोहल्ला दानिश नगर निकट हाजी मुबारक वाली मस्जिद थाना मझौला जनपद मुरादाबाद

### गिरफ्तारी व बरामदगी तथा कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. श्री सतराज सिंह थानाध्यक्ष थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद
1. श्री उम्मेद सिंह पोसवाल उ0नि0 थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद
2. का0 2226 मोहित नागर थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद
3. का0 2950 हरिशचन्द्र थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद
4. का0 1355 मौ0 नसीम थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद

### बरामदगी:-

1. एक मो0सा0 स्पैलण्डर प्रो न0 UP 21 AM 0174 काला कलर चोरी दि0 13.12.2016 थाना कटघर मुरादाबाद
2. एक मो0सा0 स्पैलण्डर प्रो न0 UP 16 CF 8761 ग्रे कलर चोरी दि0 25.01.2021 थाना इन्द्रापुरम गजियाबाद
3. एक मो0सा0 स्पैलण्डर प्लस न0 UA 06 F 0622 काला कलर चोरी काशीपुर
4. एक मो0सा0 हीरो स्पैलण्डर प्लस न0 UP 21 AN 4738 काला कलर कूट रचित फर्जी न0 प्लेट श्रीविलर

### अपराधिक इतिहास:-

अभियुक्त सोनीर –

1. मु0अ0सं0 1355/16 धारा 379 भादवि थाना कटघर मुरादाबाद
2. 1018/19 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व 467/468/471 भादवि थाना कोतवाली बराबन्की
3. 106/21 धारा 379 भादवि थाना इन्द्रापुरम गजियाबाद
4. मु0अ0सं0 27/21 धारा 41/102 सीआरपीसी व धारा 413/414/420/467/468/471 भादवि थाना डिलारी जिला मुरादाबाद

### अभियुक्त उस्मान उर्फ कमरुद्दीन –

1. मु0अ0सं0 1355/16 धारा 379 भादवि थाना कटघर मुरादाबाद

2. 106/21 धारा 379 भादवि थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद
3. मु0अ0सं0 27/21 धारा 41/102 सीआरपीसी व धारा 413/414/420/467/468/471 भादवि थाना डिलारी जिला मुरादाबाद
4. मु0अ0सं0 41/15 धारा 302 भादवि थाना गलशहीद जिला मुरादाबाद
5. मु0अ0सं0 51/15 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना गलशहीद

### **अभियुक्त राशिद --**

1. मु0अ0सं0 1355/16 धारा 379 भादवि थाना कटघर मुरादाबाद
2. 106/21 धारा 379 भादवि थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद
3. मु0अ0सं0 27/21 धारा 41/102 सीआरपीसी व धारा 413/414/420/467/468/471 भादवि थाना डिलारी जिला मुरादाबाद
4. मु0अ0सं0 251/20 धारा 188/269 भादवि थाना मझौला जिला मुरादाबाद ।

### **2 – तमंचे सहित अभियुक्त गिरफ्तार, थाना कटघर:-**

दिनांक 16-02-2021 को उ0नि0 श्री पवन कुमार थाना कटघर ने मय हमराही पुलिस बल अभियुक्त वीरपाल पुत्र प्रसादी लाल निवासी पीतलनगरी कमला विहार थाना कटघर मुरादाबाद को मय 01 तमंचा 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना कटघर पर मु0अ0सं0 87/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।

### **3 – नाजायज चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, थाना कटघर:-**

आज दिनांक 17-02-2021 को उ0नि0 श्री राशिद अख्तर थाना कटघर ने मय हमराही पुलिसबल मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त मुन्ना पुत्र अच्छन निवासी सिद्धकी कॉलोनी थाना कटघर मुरादाबाद को मय 01 चाकू नाजायज सहित गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाना कटघर पर मु0अ0सं0 88/21 धारा 04/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।

### **4 – घर में घुसकर छेडछाड व मारपीट करने का अभियुक्त गिरफ्तार, थाना पाकबडा:-**

आज दिनांक 17-02-2021 को वादिनी.....निवासी क्षेत्रान्तर्गत थाना पाकबडा मुरादाबाद ने अभियुक्त द्वारा वादिनी के घर में घुसकर छेडछाड कराना, मारपीट करना व जाने से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाने पाकबडा पर तहरीर दी, जिसके सम्बन्ध में थाना पाकबडा पर मु0अ0सं0 54/21 धारा 354, 452, 504, 506 भादवि पंजीकृत किया गया । उक्त के क्रम में आज दिनांक 17-02-2021 को ही म0उ0नि0 सीमा खोखर थाना पाकबडा ने मय हमराही पुलिसबल अभियुक्त मुस्ताक पुत्र भूरे निवासी महलकपुर रोड कस्बा व थाना पाकबडा जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया ।